

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2019-वैशाख 13, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 मई 2019

फा0 क्रमांक-2714-2019-इक्कीस-ब-(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 02 जिलों (बैतूल एवं धार) के कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

दिनांक 02.05.19 को विधि विभाग को भेजे जाने वाले
प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये पत्रों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	पत्र क्रमांक	दिनांक
1.	बैतूल	2430	02.05.19
2.	धार	2913	02.05.19

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल, मध्यप्रदेश

क्रमांक-ईएल-2019-2430

बैतूल, दिनांक 2-05-2019

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल
लोकसभा आम निर्वाचन 2019
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

बैतूल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री जयराम कुमरे	सहायक शिक्षक	शा.बालक उ.मा.विद्या. मुलताई	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
2	श्री नितिन पाठेकर	अध्यापक	जनपद पंचायत मुलताई	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
3	श्री नारायण निरापुरे	अध्यापक	शा.बालक उ.मा.विद्या. मुलताई	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
4	श्री रामनाथ मर्सकोले	उ.श्रे.शि.	वरि.कृषि विस्तार अधिकारी मुलताई	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
5	श्री कृष्ण पहाड़े	सहायक अध्यापक	शा.उ.कन्या मा.विद्या. आमला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
6	श्री मनोष उईके	सहायक अध्यापक	शा.उ.कन्या मा.विद्या. आमला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
7	श्री अजय सिंह परमार	सहायक अध्यापक	शा.उ.कन्या मा.विद्या. आमला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
8	श्री भीमराव धोटे	जन शिक्षक	एम.एल.बी. बैतूल	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
9	श्री संतोष करोले	सहायक अध्यापक	शा.कन्या उ.मा.विद्या. बैतूल यंज	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
10	श्री कश्मीर बर्डे	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. भडूस	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
11	श्री राजराम डिगरसे	अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. खण्डारा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
12	श्री नरेन्द्र सिंह नगदे	अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. कन्या पांथाखेडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
13	श्री श्यामजी सुरोरिया	सहायक अध्यापक	शा.कन्या.उ.मा.विद्या. शाहपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
14	श्री सुखराम धुवे	सहायक अध्यापक	शा.कन्या.उ.मा.विद्या. शाहपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
15	श्री प्रवीण धोटे	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. चित्कापुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
16	श्री विरेन्द्र हिवेकर	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. चित्कापुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
17	श्री रामगोपाल लोखडे	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. हिडली	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
18	श्री राजेश मसौदकर	सहायक अध्यापक	शा.कन्या उ.मा.विद्या. टेमनी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
19	श्री दिनेश मगरदे	सहायक अध्यापक	शा.बा.उ.मा.विद्या. मुलताई	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
20	श्री लखनसिंह रघुवंशी	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. दुनावा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
21	श्री चन्द्रशेखर राबडे	वरि.अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. बिसनूर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
22	श्री सुदाम गाढ़ेकर	सहा.शिक्षक	शा.उ.मा.विद्या. आमला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये

	श्री बिसनू यदुवंशी	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. बोरदेही	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
	श्री दिनेश सोनार	सहायक अध्यापक	शा.कन्या उ.मा.विद्या. आमला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
5	श्री लालसिंह ठाकुर	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. खण्डारा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
26	श्री विजय प्रवार	जन शिक्षक	हाई स्कूल नाहिया	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
27	श्री अंकुश चौरसिया	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. जीन	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
28	श्री भोलाराम अतुलकर	जनशिक्षक	हाई स्कूल खण्डारा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
29	श्री ज्ञानसिंह टेकाम	सहायक अध्यापक	वि.ख.शिक्षा अधि. कार्यालय घोड़ाडाँगरी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
30	श्री लखनसिंह रोहेला	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. बीजादेही	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
31	श्री हंसाराम यादव	सहायक अध्यापक	शा.हा.स्कूल मलाजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
32	श्री अनिलसिंह चौहान	सहायक अध्यापक	शा.कन्या उ.मा.विद्या. शाहपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
33	श्री मोहनसिंह परते	सहायक शिक्षक	शा.उ.मा.विद्या. सावलमेढा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
34	श्री लक्ष्मण बागदे	सहायक अध्यापक	शा.हाई स्कूल जावरा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
35	श्री रामदयाल बिसाने	सहायक अध्यापक	उ.मा.विद्या. कन्या भीमपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये
36	श्री सहितकुमार जैयसवाल	सहायक अध्यापक	शा.उ.मा.विद्या. भीमपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
बैतूल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-धार, मध्यप्रदेश

क्रमांक-2913-निर्वाचन-2019

धार, दिनांक 2-05-2019

लोकसभा नर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त करने बाबत सशोधित अधिकारियों के प्रस्ताव

जिले का नाम - धार

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा सवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जानी प्रस्तावित है।
1	श्री कुवरसिंह भौर्य	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग सरदारपुर	उड़न दस्ता प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
2	श्री सुनित कुमार कोकाटे	सहायक मानचित्रकार	लोक निर्माण विभाग धार	उड़न दस्ता प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
3	श्री राजनिश गिन्वाल	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	कृषि विभाग बदनावर	उड़न दस्ता प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
4	श्री दलसिंह परमार	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत सरदारपुर	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
5	श्री तकेसिंह ठाकुर	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत तिरवा	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
6	श्री कैलाश कर्तम	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सरदारपुर	कृषि विभाग सरदारपुर	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
7	श्री देवीलाल कुमावत	बीएसी	जनपद शिक्षा केन्द्र सरदारपुर	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
8	श्री लाखनसिंह देनल	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	कृषि विभाग सरदारपुर	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
9	श्री नंदराम सोलकी	पीसीओ	जनपद पंचायत बाग	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
10	श्री गोविंद निगवाल	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत गधवानी	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
11	श्री हेमवती नन्दन बिरला	ग्रा.उद्यान अधिकारी	उद्यानिकी विभाग गधवानी	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
12	श्री मनोहर डाबर	सह प्रेड-3	विकासखण्ड कार्यालय गधवानी	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
13	श्री जयराम कनेल	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग कुशी	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 198 कुशी
14	श्री प्रतापसिंह वास्केल	उपयंत्री	जनपद पंचायत डही	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 198 कुशी
15	श्री कालराम डाबर	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत डही	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 198 कुशी
16	श्री खडकसिंह सोलकी	एएफओ	पशुचिकित्सालय डही	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 198 कुशी
17	श्री श्यामसुंदर मुदगल	पीटीआई	ग.स. हाई स्कूल खलघाट	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 200 धरमपुरी
18	श्री बी.एस. कोशल	कृषि विस्तार अधिकारी	सहाय्यी संरक्षण धार	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
19	श्री जे.एस. चौहान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कल्याण एवं कृषि विभाग धार	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
20	श्री महेश पटेल	राजस्व उप निरीक्षक	नगर पालिका पीथमपुर	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
21	श्री देवशाल नागर	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कल्याण एवं कृषि विभाग धार	स्थितिक निगरानी दल प्रमारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा स्वर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां पदता की जाना प्रस्तावित है।
22	श्री बदनसिंह सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग धार	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
23	श्री तासचंद बागनिया	उपयंत्री	म.प्र. हाउसिंग बोर्ड धार	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
24	श्री दिलीप नरगंस	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग बदनावर	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
25	श्री जी.एस. चौहान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग बदनावर	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
26	श्री सतीष सुवेल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग बदनावर	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
27	श्री सत्य नारायण शर्मा	सहा. ग्रेड-3	-	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
28	श्री अजय चौहान	जन शिक्षक	कड़ोदकला	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
29	श्री सतीष मण्डतोई	सहायक ग्रेड-3	गासकीय उ.मा.वि.सन्तला	स्थितिक निगरानी दल प्रभारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
30	श्री जितेन्द्र सोलंकी	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत सरदारपुर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 195 सरदारपुर
31	श्री लक्ष्मीनारायण राठौर	उपयंत्री	लो.नि.वि. उपसभागा सरदारपुर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 195 सरदारपुर
32	श्री राधेश्याम मण्डतोई	परियोजना अधिकारी	जिला शहरी विकास विभाग धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
33	श्री मोहन सिंह धुते	सहायक संचालक	कृषि किसान कल्याण धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
34	श्री सुरेश पंडित	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत सरदारपुर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
35	श्री मनोज स्वर्णकार	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण रु.वि.परि.क्रिया ई-1 धार	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
36	श्री मोहरसिंह प्रहलाप	उपयंत्री	ग्रा.यां सेवा सभाग सरदारपुर	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
37	श्री ए.के.गंग	उपयंत्री	जल संचालन सभाग सरदारपुर	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
38	श्री शैल सलीम मो.	उपयंत्री	सहायक भू-जल वि.ई.काई क 15 धार	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 196 सरदारपुर
39	श्री सुनिल खरात	उपयंत्री	ग्रा.यात्रिकी सेवा ज.प. तिरला	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
40	श्री कलाश चौहान	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत बाग	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
41	श्री माणिक सिंगवाल	परियोजना अधिकारी	महिला शल विकास तिरला	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
42	श्री सुरेश कुमार अहिरवार	सहायक मत्स्य अधिकारी	मत्स्य विभाग धार	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
43	श्री अनिल अहिरवार	उपयंत्री	जल संसाधन उपसभाग मनावर	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी
44	श्री चन्देल चौहान	उपयंत्री	जल संसाधन क. 2 गधवानी	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गधवानी

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा सवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाती प्रस्तावित है।
45	श्री बिरल पटेल	अनुविभागीय अधिकारी	ग्र.या.स.उपसभा गंधवानी	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 197 गंधवानी
46	श्री रघुनाथ जयसवाल	उपयंत्री	तर्मदाघाटी विकास सभाग कुशी	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 198 कुशी
47	श्री हबीब खान	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सभाग कुशी	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 198 कुशी
48	श्री ब्रजकिशोर राठी	अनुविभागीय अधिकारी	न.घा.वि सभाग क 30 मनावर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 199 मनावर
49	सश्री मजु चारल	सहायक यंत्री	जल संसाधन सभाग मनावर	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 199 मनावर
50	श्री डी एस निगम	सहकारिता निरीक्षक	जनपद पंचायत नालछा	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 200 धरमपुरी
51	श्री सत्यनारायण वर्मा	पीसीओ	जनपद पंचायत नालछा	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 200 धरमपुरी
52	श्री टी सी ठावनिया	सहायक संचालक	कृषि कल्याण कृषि विभाग धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
53	श्री कन्हैयालाल यादव	प्रबंधक	खादी ग्रामोद्योग धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
54	श्री अरविंद गुप्ता	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
55	श्री टी एस काली	सहा प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण स.वि.परि.क्रिया ई 3 धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
56	श्री अरविंद प्रकाश सक्सेना	श्रम पदाधिकारी	श्रम पदाधिकारी पीथमपुर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
57	श्री एम एस वर्मा	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण वि.प्राधिकरण धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
58	श्री जगदीश प्रसाद गीतम	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण स.वि.परि.क्रिया ई 3 धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 201 धार
59	श्री सचिन लोगरिया	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य एवं आषधि प्रशासन धार	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
60	श्री शान्ताराम पाटीदार	सहायक वि. अधिकारी	जनपद पंचायत बदनावर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
61	श्री सत्यज जैन	उपयंत्री	लो.नि.वि. बदनावर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
62	श्री शाहजाद मोशव	उपयंत्री	लो.स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड बदनावर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
63	श्री मन्वीरसिंह गरवाल	उपयंत्री	जनपद पंचायत बदनावर	सेक्टर अधिकारी	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर
64	श्री एम के. केशवास	उपयंत्री	लो.नि.वि. बदनावर	सेक्टर रिजर्व	लोकसभा क्षेत्र धार अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र 202 बदनावर

हस्ता./—

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-धार.